

Caution Notice

Attention to all customers and the general public

Dear Client,

We have recently become aware of some unknown individuals who have been fraudulently using our Company name Angel One Ltd. to carry out scams and illicit activities through application "Angelbok" collecting funds and offering returns on investment.

It has come to our attention that these fraudsters have been reaching out to individuals, claiming to be representatives of our company Angel One Ltd and offering false services, products or investment opportunities. They may even provide fraudulent websites, documents or contact details to trick their victims into believing their authenticity.

We would like to inform everyone that Angel One Ltd. has no involvement whatsoever in such activities and we strongly condemn any fraudulent actions carried out in our Company name. We are a reputable Company committed to upholding the highest standards of integrity and professionalism in all our operations.

These fraudsters may contact unsuspecting individuals through various means, including phone calls, emails, or social media platforms, pretending to be representatives of Angel One Ltd. They may present false documentation, false investment plans, or provide misleading information in an attempt to deceive their victims.

Refer following links for the company's social media presence:

<https://www.angelone.in/>
<https://www.facebook.com/OfficialAngelOne>
https://t.me/Official_AngelOne
<https://youtube.com/@angelone>
<https://www.instagram.com/angelone/>
<https://www.linkedin.com/company/angelone/>

To protect yourself from falling victim to their scams, we advise the following precautions:

- Be cautious when providing personal information: Only provide sensitive personal and financial information to trusted sources and official channels of Angel One Ltd.
- Verify the legitimacy of any requests: If you receive any unexpected or suspicious communication claiming to be from Angel One Ltd., verify its authenticity by reaching out to our official channels using the contact information available on our official website.
- Beware of suspicious offers: Be wary of any offers or schemes that seem too good to be true. Always conduct thorough research and due diligence before engaging in any financial transactions or investments.
- Change your passwords regularly and use strong passwords that are difficult to predict. Do not share OTP / PIN with anyone.
- Be cautious while transferring funds to third party account.
- Make sure you keep your contact information up to date and always check for any suspicious activity in your accounts
- Report any fraudulent activity: If you have been contacted by someone fraudulently using the name of Angel One Ltd. or if you suspect any fraudulent activity, please report it immediately to the local authorities and inform us through our official channels.

Please remember that Angel One Ltd. takes your security and trust seriously and we remain dedicated to providing our customers with reliable and legitimate services. Thank you for your cooperation and assistance in preventing any further suspicious activities.



Caution Notice

Attention to all Customers and the General Public

Dear Client,

We have recently become aware of some unknown individuals who have been fraudulently using our Company name Angel One Ltd. to carry out scams and illicit activities through application "Angelbg", "Angeloneelite" collecting funds and offering returns on investment.

It has come to our attention that these fraudsters have been reaching out to individuals, claiming to be representatives of our company Angel One Ltd and offering false services, products or investment opportunities. They may even provide fraudulent websites, documents or contact details to trick their victims into believing their authenticity.

We would like to inform everyone that Angel One Ltd. has no involvement whatsoever in such activities and we strongly condemn any fraudulent actions carried out in our Company name. We are a reputable Company committed to upholding the highest standards of integrity and professionalism in all our operations.

These fraudsters may contact unsuspecting individuals through various means, including phone calls, emails, or social media platforms, pretending to be representatives of Angel One Ltd. They may present false documentation, false investment plans, or provide misleading information in an attempt to deceive their victims.

Refer following links for the company's social media presence:

<https://www.angelone.in/>

<https://www.facebook.com/OfficialAngelOne>

https://t.me/Official_AngelOne

<https://youtube.com/@angelone>

<https://www.instagram.com/angelone/>

<https://www.linkedin.com/company/angelone/>

To protect yourself from falling victim to their scams, we advise the following precautions:

- Be cautious when providing personal information: Only provide sensitive personal and financial information to trusted sources and official channels of Angel One Ltd.
- Verify the legitimacy of any requests: If you receive any unexpected or suspicious communication claiming to be from Angel One Ltd., verify its authenticity by reaching out to our official channels using the contact information available on our official website.
- Beware of suspicious offers: Be wary of any offers or schemes that seem too good to be true. Always conduct thorough research and due diligence before engaging in any financial transactions or investments.
- Change your passwords regularly and use strong passwords that are difficult to predict. Do not share OTP / PIN with anyone.
- Be cautious while transferring funds to a third party account.
- Make sure you keep your contact information up to date and always check for any suspicious activity in your accounts
- Report any fraudulent activity: If you have been contacted by someone fraudulently using the name of Angel One Ltd. or if you suspect any fraudulent activity, please report it immediately to the local authorities and inform us through our official channels.

Please remember that Angel One Ltd. takes your security and trust seriously and we remain dedicated to providing our customers with reliable and legitimate services. Thank you for your cooperation and assistance in preventing any further suspicious activities.

Regards,
Team Angel One



यूको बैंक UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)
Head Office, Department of Information Technology
3 & 4, DD Block, Sector - 1, Salt Lake, Kolkata-700064

NOTICE INVITING TENDER
UCO Bank invites tender for Supply of Privilege Identity Management (PIM) Licenses
For any details, please refer to <https://www.uco.bank> or it@ucom.gov.in

Deputy General Manager
Department of Information Technology
Date: 16.02.2024

Godrej Industries Limited
CIN: L24241MH1989PLC029776
Registered Office: Godrej One, Phiroze Nagar, Eastern Express Highway,
Wiltch (East), Mumbai 400075, Maharashtra
Tel: 022- 2516 8010; Fax: 022- 2516 8066
Website: www.godrejindustries.com; Email: invest@godrejindia.com

NOTICE
The Members of Godrej Industries Limited ("the Company") are hereby informed that in compliance with provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Regulations, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and in terms of various Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Ministry of Finance ("Ministry of Finance"), the Company is seeking the consent of its Members for passing Special Resolution by way of Postal Ballot to the proposed resolution as stated in the Postal Ballot Notice dated February 9, 2024 ("Postal Ballot Notice"). The Company has completed the process of the Postal Ballot and is hereby inviting all its Members to cast their votes.

The Members of Godrej Industries Limited ("the Company") are hereby informed that in compliance with provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Regulations, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and in terms of various Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Ministry of Finance ("Ministry of Finance"), the Company is seeking the consent of its Members for passing Special Resolution by way of Postal Ballot to the proposed resolution as stated in the Postal Ballot Notice dated February 9, 2024 ("Postal Ballot Notice"). The Company has completed the process of the Postal Ballot and is hereby inviting all its Members to cast their votes.

In compliance with the provisions of the applicable laws, the Company is providing e-voting facility to the Members to cast their vote by electronic means on the resolution set forth in the Postal Ballot Notice, through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). The Members have an option to exercise their vote either electronically or by way of physical Ballot Form. The procedure / instructions for voting are given in the Postal Ballot Notice. The e-voting facility is available from 9:00 AM, (IST) on Saturday, February 17, 2024 to 6:00 PM (IST) on Sunday, March 17, 2024. Any amount received from the Members after 6:00 PM (IST) on Sunday, March 17, 2024 (whether by postal ballot form) or by electronic means will be treated as invalid and the voting will not be counted beyond the said date and time.

Members desiring to cast their vote through postal ballot physically are requested to be present at the Postal Ballot Office, at their own cost, at the Solicitor Mr. Kishan Vajre, Practising Company Secretary, City Computer Shampoo Limited, Unit Godrej Industries Limited, 147, Mahatma Gandhi Road, Opp. Jahangir Arts Colony, Phiroze Nagar, Eastern Express Highway, not later than 6:00 PM (IST) on Sunday, March 17, 2024. Postage / courier expenses for sending such physical postal ballot forms to the Solicitor will be borne by the Members. Please note that any Postal Ballot Form/Electronic Vote re-communicated (being the Member) after the aforesaid time period will not be valid and will be treated as invalid. The Members who have not registered their e-mail addresses with the Company or the Depositories are requested to do so by following the process mentioned in the Postal Ballot Notice dated February 9, 2024.

The results of the Postal Ballot will be announced on or before Tuesday, March 19, 2024 and the same will be displayed on the website of the Company, viz. www.godrejindustries.com and shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges.

orbit exports ltd.
Registered & Corporate Office: 2nd Floor, Midas Bhawan, 122, Disha Wacha Road, Churuguda, Mumbai - 400026, India. Tel: +91 22 62652626;
Email: investor@orbitexports.com; www.orbitexports.com

NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS - BUYBACK OF EQUITY SHARES
Orbit Exports Limited ("Company") has announced the Buyback of its Equity Shares with the Form of Acceptance of Offer and Tender Form ("Offer and Tender Form") and the Share Transfer Form ("Form-S") dated February 15, 2024 for the Letter of Offer through electronic means, to all the Eligible Shareholders holding Equity Shares as on the Record Date i.e., Tuesday, February 13, 2024, who have registered their e-mail IDs with the Company or the Depositories. However, if the Company or the Registrar receives a physical copy of the Letter of Offer/Tender Form, the same shall be provided to such Eligible Shareholder, by registered post/secure post/courier, at their address registered with the Company.

Activity	Day & Date
Date of opening of the Buy-back ("Buy-back Opening Date")	Tuesday, February 20, 2024
Date of closing of the Buy-back ("Buy-back Closing Date")	Monday, February 26, 2024
Last date for receipt of completed Tender Forms and other specified documents including physical share certificate (as applicable) by the Registrar to the Buy-back	Monday, February 26, 2024

- Click on <https://linkin.time.com/OrbitDefault.aspx>.
- Select the name of the Company as "Orbit Exports Limited-Buyback-2024".
- Enter the PAN of the Shareholder in the designated field.
- Based on the option selected above, enter your DPID/UID or Folio Number or PAN.
- Then click on the View button.
- The entitlement will be provided in the pre-filled Form OF ACCEPTANCE-CUM ACCEPTANCE-EDGEMERIT.

FORBRIEFEXPORTS LIMITED
Pankaj Seth Sd/-, Anisha Seth Sd/-, Soniya Gupta Sd/-
Chairman and Managing Director, Whole-Time Director, Company Secretary & Compliance Officer
DIN: 00227554, ICSI Membership Number: 443003
Place: Mumbai, Date: February 15, 2024

ANGEL ONE LIMITED
Regd. Off: 601, 6th Floor, Akruti Star, Central Road, MIDC, Andheri East, Mumbai - 400093 SEBI Registration No (Stock Broker): IN2000161534

PUBLIC NOTICE
This is to inform that, AngelOne, AngelOne AngelOne investments on play station (IOS) are wrongfully and deceptively using the brand name and logo of Angel One Limited to deceive the general public and to be associated with Angel One Limited. Investors and General Public are hereby informed that Angel One Limited does not have any association and/or relation, directly or indirectly with "AngelOneK", "AngelOneK" applications in any capacity. Angel One Limited will not be liable in any manner of financial loss and/or consequence of dealing with AngelOne, AngelOne, AngelOne investments. Please note that any person dealing with them will be dealing at his/her own risk and responsibility.

TATA POWER
The Tata Power Company Limited, 601, 6th Floor, Akruti Star, Central Road, MIDC, Andheri East, Mumbai - 400093, Maharashtra, India
Tel: 022-42773877, 022-42773877

NOTICE FOR INVITING BIDS
Tender for: Tender/ Tender/Coal 01/24-25
The Tata Power Company Limited, a company organized and existing under the laws of India, whose registered office is at Bombay House, 24, Hornby Street, Mumbai-400021, India, intends to source the thermal coal with low Sulphur and low ash Impurity Thermal coal of 1750 MT on delivery period with effect from 2024 to June 2024. The interested bidders are requested to visit the website <https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx> for further details. Eligible bidders who participate may submit their expression of interest latest by 17:00 hrs. (IST) 22nd February 2024. Future competitors (if any), to the above tenders will be published on the website <https://www.tatapower.com>.

THE GAEKWAR MILLS LIMITED
CIN: L17280MH1989PLC020731
REGD. OFFICE: 302 New Street, Chhatra Swamiji Bhawan, Parel Road No. 24, Street Colony, Mumbai - 400 022

Extract of the Statement of Unaudited Financial Results for the quarter ended 31st December 2023

Sl. No.	Particulars	Quarterly Financial Results (Rs. in Lakhs)			
		31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	30-Sep-22
1	Total Income from Operations	72.08	37.27	135.10	64.99
2	Net Profit (Loss) for the period before tax	(78.09)	(110.27)	(111.86)	(266.17)
3	Net Profit (Loss) for the period after tax	(78.09)	(110.27)	(111.86)	(266.17)
4	Equity Share Capital	200	200	200	200
5	Reserves including Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year	-	-	-	-
6	Earnings Per Share of Rs. 10/- each (after Extraordinary Items)	(3.90)	(5.51)	(5.58)	(18.21)
	(a) Basic	(3.90)	(5.51)	(5.58)	(18.21)
	(b) Diluted	(3.90)	(5.51)	(5.58)	(18.21)

(1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and also available on the Company's website www.gaeekwar.com and the Company's website www.bseindia.com and the Company's website www.nseindia.com.

Place: Mumbai, Date: 14th February, 2024
Shweta Shah
(Wholetime Director & CEO (IN: 0328735))

TTI ENTERPRISE LIMITED
CIN: L67120WB1989PLC033774
Office No. 222, 8th Floor, 4, Synnagru Street, Kolkata - 700001
Email: IR1711@gmail.com; Phone: +91 33 2210 9197, Web: www.ttienterprise.net

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended 31st December, 2023 (Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Standalone		Year Ended
		31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	30-Sep-22	
1	Total Income from Operations	72.08	37.27	135.10	64.99	345.90
2	Net Profit (Loss) for the period before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items	61.67	(65.87)	(32.50)	3.25	(5.50)
3	Net Profit (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	61.67	(65.87)	(32.52)	3.27	(5.56)
4	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	61.67	(65.87)	(32.52)	3.27	(5.56)
5	Equity Share Capital (Face Value)	250.40	250.40	250.40	250.40	250.40
6	Reserves including Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the Company	-	-	-	-	(14.09)
7	Earnings Per Share (EPS) - each (after Extraordinary and discontinued operations)	0.24	(0.23)	(0.13)	0.01	(0.10)
	(a) Basic	0.24	(0.23)	(0.13)	0.01	(0.10)
	(b) Diluted	0.24	(0.23)	(0.13)	0.01	(0.10)

Notes:
1. The Financial Results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016 Companies Act 2013 (The Act) read with relevant Issues Relating to the Standard and other accounting principles generally accepted in India.
2. In compliance with Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a limited review of Financial Results for the quarter ended 31st December, 2023 has been carried out by the Statutory Auditors.
3. The Unaudited Financial Results for the quarter and period ended 31st December, 2023 have been reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 14.02.2024 and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on 14.02.2024.
4. The Company has no Segment only viz. Investment and Loan activities. This Segment reporting is not applicable.
5. Provisions for taxation and any other provision required will be made at the end of the year.
6. The said Financial Results is also being made available on the website of the Company at www.ttienterprise.net.

MPS INFOTECNICS LIMITED
Regd. Off: 183, Anarupali Building 19 Barabanki Road, New Delhi-110091
CIN: L30007DL1989PLC13190, Ph: 011-43571944, Fax: 011-43571407, Email: info@mpsinfectonics.com

Extract of Unaudited Financial Results (Consolidated) for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2023 (Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
		31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	30-Sep-22	
1	Total Income from operations (net)	12.26	20.93	12.77	43.95	153.99
2	Net Profit (Loss) for the period before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items	(94.43)	(91.10)	(119.75)	(260.57)	(374.47)
3	Net Profit (Loss) for the period after tax	(82.81)	(79.44)	(104.16)	(245.69)	(440.38)
4	Total Comprehensive Income for the Period (Net of Tax)	(81.93)	(68.71)	(89.86)	(235.45)	(250.10)
5	Equity Share Capital (Face Value Rs. 1/- per share)	37,744.37	37,744.37	37,744.37	37,744.37	37,744.37
6	Reserves including Revaluation reserves (i.e. Other equity)	-	-	-	-	5,726.98
7	Earnings Per Share (Basic)	(0.002)	(0.002)	(0.002)	(0.006)	(0.007)
8	Earnings Per Share (Diluted)	(0.002)	(0.002)	(0.002)	(0.006)	(0.007)

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and the Company's website www.mpsinfotech.com.
2. The key standalone financial information are as under:
Particulars
Quarter Ended
31-Dec-23
30-Sep-23
31-Dec-22
30-Sep-22
Year Ended
31-Dec-23
31-Mar-23

Place: New Delhi, Date: 14/02/2024
For MPS Infotech Limited Sd/-
Mr. Peeyush Kumar Agarwal
Managing Director
DIN: 09094243

TATA POWER
The Tata Power Company Limited, 601, 6th Floor, Akruti Star, Central Road, MIDC, Andheri East, Mumbai - 400093, Maharashtra, India
Tel: 022-42773877, 022-42773877

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
The Tata Power Company Limited invites tender from eligible vendors for the following tender package (Two-part Bidding in Mumbai):
Rate Contract for Meter, Modern Installation & Replacement, Meter Discrepancy & other meter-related activities for T&E Distribution.
Package Reference: CCW/KD31.

For downloading the Tender documents (including the procedure for submission of the tender), please visit the Tender section on the website <https://www.tatapower.com>. The interested bidders are to visit the Tender for purchase and participation in the tender before 17:00 hrs. 6 March 2024. Also, all Java conformance (if any), to the above tender will be informed on the website <https://www.tatapower.com> only.

HCL INFOSYSTEMS LIMITED
Regd. Office: 806, Siddhant, 96, Nehru Place, New Delhi-110 019
Corporate Office: A-11, Sector - 3, Noida - 201301 (UP)
Tel: +91-120-2520917, 252618519
Email: cases@hcl.com; Website: www.hclinfosystems.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT TO MEMBERS
Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 104 & 105 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the rules made thereunder & Secretarial Standard-2 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has completed the electronic transmission of the Postal Ballot Notice today i.e., Thursday, 15th February 2024 to all the Members for seeking their consent by way of Special Resolution for the following matter:

- Re-appointment of Dr. Nihil Sinha (DIN: 01174807) as a Non-Executive Independent Director of the Company.

In compliance with all applicable MCA and SEBI Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice on Thursday, 15th February 2024 only through electronic mode to all its shareholders at their available registered e-mail addresses and whose names are recorded in the Register of Members as on Friday, 9th February 2024. The communication of assent/dissent of the members will only take place through the remote e-voting system. The Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company www.hclinfosystems.in as well as on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com. The Members of the Company holding Shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Friday, 9th February 2024 are required to exercise their votes electronically. The Company is providing the facility to the Members to exercise the right to vote by electronic means through e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL).
The Period for voting commences from Friday, 16th February, 2024 09:00 AM (IST) and ends on Saturday, 16th March, 2024 (05:00 PM, IST). The e-voting mode shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote is cast by the Member, his/her shall not be allowed to change it subsequently. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Postal Ballot Notice.
Any Member having any grievance pertaining to the Postal Ballot Notice may write to the Company Secretary of the Company at cases@hcl.com or contact at +91 120 2526980. The result of the Postal Ballot will be declared on or before Monday, 18th March, 2024 and will be displayed on the website of the Company www.hclinfosystems.in. In case of any queries you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for the Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the downloads section of <http://www.evoting.nsdl.com> or contact NSDL by email at evoting@nsdl.com or call on 1800 222 9920.

By Order of the Board of Directors
For HCL Infosystems Limited Sd/-
Kamal Bhatia
Company Secretary and Compliance Officer
ACS-441455

VISA STEEL LIMITED
CIN: L51090R1996PLC004601
Registered Office: 11 Ekamra Kanan, Nayapalli, Bhubaneswar 751 015, Odisha Phone: (+91-674) 256 2479; Fax: (+91-674) 255 4661
website: www.visasteel.com * Email ID for registering Investor Grievances: cs@visasteel.com

Extract of Unaudited Standalone/Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December 2023 (Rs. in Million, except EPS)

Sl. No.	Particulars	Standalone		Consolidated	
		Quarter Ended	Nine Months Ended	Quarter Ended	Nine Months Ended
		31 December 2023	31 December 2023	31 December 2023	31 December 2023
1	Total Income from Operations (net)	899.90	1,528.04	5,148.84	2,652.51
2	Net Profit (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(243.62)	(187.82)	(630.12)	(450.18)
3	Net Profit (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(243.62)	(4,171.56)	(630.12)	(4,433.82)
4	Net Profit (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(243.62)	(4,171.56)	(630.12)	(4,433.82)
5	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(242.35)	(4,171.64)	(626.33)	(4,434.06)
6	Equity Share Capital (face value of Rs. 10/- each)	1,157.90	1,157.90	1,157.90	1,157.90
7	Other Equity**	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Basic and Diluted)	(2.10)	(36.03)	(5.44)	(38.29)
**	Includes Exceptional Items (Refer Note 1 below).				
**	Other Equity as on 31 March 2023 stands at Rs.(8,878.92) Millions and Rs.(8,878.89) Millions respectively for the Standalone and Consolidated Financial Results.				

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December 2023, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and also available on the Company's website www.visasteel.com and also available on the Stock Exchange websites, NSE: www.nseindia.com & BSE: www.bseindia.com.
2. In case of any queries or issues regarding e-voting through the CDSL e-voting System, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evoting.com or contact at toll free number 1800 222 9920.
3. In case of any queries or issues regarding e-voting through the CDSL e-voting System, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evoting.com or contact at toll free number 1800 222 9920.
4. All persons connected with the facility for voting by electronic means will be addressed to Mr. Rajesh Dash, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 29th Floor, Member House, National Securities Depository Limited, N. J. Somi Road, Lower Phase, Sector 6, Mumbai - 400013 or send an email to helpline.evoting@bseindia.com or call at toll free no. 1800 222 9920.

TAYO ROLLERS LIMITED
Registered Office: 3, Circuit House Area (North-East), Road No-11, Rastapur, Jamshedpur - 831 001, INDIA
Corporate Identity Number: L17105JH1989PLC00818

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2023 (Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Nine Month ended		Year ended
		31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022	
1	Total Income	(83)	(84)	(87)	(250)	(444)
2	(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(83)	(84)	(87)	(250)	(444)
3	Net Profit (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(83)	(84)	(87)	(250)	(444)
4	Other comprehensive income/loss for the period	-	-	-	-	-
5	Total Comprehensive Income for the period	(83)	(84)	(87)	(250)	(444)
6	Equity share capital	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828
7	Other equity	-	-	-	-	(49,439)
8	EPS-upon equity share capital (Face value: Rs. 10 per share)	(0.45)	(0.46)	(0.48)	(1.36)	(2.43)
	Basic	(0.45)	(0.46)	(0.48)	(1.36)	(2.43)
	Diluted	(0.41)	(0.42)	(0.45)	(1.35)	(2.36)

Note:
1. All the above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine Months/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. The Board of Directors had referred the Company to the Board for Information and Financial Resolution (BIFR) as required under the First proviso of section 15 (1) of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 and the Company is registered with BIFR on 23 March, 2016. Meanwhile, the Ministry of Finance issued Notifications S.O. 3558 (I), S.O. 3598 (I) dated 25 November, 2016 in effect that SICA has been dissolved with effect from 1 December, 2016 and all the references or mention of SICA or BIFR in any order or resolution of the Board of Directors at their meeting held on 3 July, 2017 had decided to refer the Company to the Honorable National Company Law Tribunal (NCLT) Bench Kolkata under Section 11 of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 seeking resolution for the Company. The Company has filed an application before the Honorable NCLT Bench, Kolkata under Section 11 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The Workers of the Company, in its capacity of creditor/creditor had filed an application before the Honorable NCLT Bench under Section 11 of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 seeking resolution of the Company. Both applications were referred to the Honorable NCLT Bench and the Honorable NCLT Bench has separately filed appeal before the Honorable National Company Law Appellate Tribunal against the rejection order passed by the Honorable Tribunal. The Honorable Appellate Tribunal allowed the appeal filed by the Company and the Workers. However, it has directed the Honorable NCLT Bench to admit the appeal filed by the Company.
3. The Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) has been initiated against the Company vide an order passed by Honorable NCLT Kolkata dated 04.04.2019 pursuant to this order, the powers of the Board of Directors stands suspended and the CIRP is being managed by the Insolvency Resolution Professional (IRP) appointed by the Honorable NCLT Bench, Kolkata who was subsequently confirmed as the Insolvency Resolution Professional (IRP) by the Committee of Creditors (CoC). The IRP has filed an application before the Honorable NCLT Bench, Kolkata, passed an order on 30th October, 2019 appointing M/s. J. K. Jaiswal & Associates as the Insolvency Resolution Professional (IRP) for the Company. The Honorable NCLT Bench, Kolkata has issued an order on 11.11.2019, appointing M/s. J. K. Jaiswal & Associates as the Insolvency Resolution Professional (IRP) for the Company. The IRP has filed an application before the Honorable NCLT Bench, Kolkata under Section 11 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The Workers of the Company, in its capacity of creditor/creditor had filed an application before the Honorable NCLT Bench under Section 11 of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 seeking resolution of the Company. Both applications were referred to the Honorable NCLT Bench and the Honorable NCLT Bench has separately filed appeal before the Honorable National Company Law Appellate Tribunal against the rejection order passed by the Honorable Tribunal. The Honorable Appellate Tribunal allowed the appeal filed by the Company and the Workers. However, it has directed the Honorable NCLT Bench to admit the appeal filed by the Company.
4. The Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) has been initiated against the Company vide an order passed by Honorable NCLT Kolkata dated 04.04.2019 pursuant to this order, the powers of the Board of Directors stands suspended and the CIRP is being managed by the Insolvency Resolution Professional (IRP) appointed by the Honorable NCLT Bench, Kolkata who was subsequently confirmed as the Insolvency Resolution Professional (IRP) by

प्रभावित होगा ऋण : ऋण की मांग पूरी करने के लिए जमा आकर्षित करने में आ रही चुनौतियों के कारण वित्त वर्ष 2025 में भारत के बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि प्रभावित हो सकती है। एएसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की रिपोर्ट में यह सामने आया है।

यूको बैंक UCO BANK
(भारत सरकार का उपकरण)
प्रधान कार्यालय-1, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
3 और 4, डीबी ब्लॉक, सेक्टर-1, साइट लेक, कोलकाता-700 064

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

यूको बैंक प्रिविलेज्ड आईडेंटिटी मैनेजमेंट (पीआईएम) लाइसेंस की आपूर्ति को खरीदने के लिए निविदा आमंत्रित करता है।
किसी भी विवरण के लिए कृपया <https://www.ucobank.com> अथवा <https://gem.gov.in> वेबसाइट पर देखें।
(उप-महाप्रबंधक)
दिनांक: 16.02.2024 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

ANGEL ONE LIMITED
Regd. Off: 601, 6th Floor, Akkrut Star, Central Road, MIDC, Andheri East, Mumbai - 400093 SEBI Registration No (Stock Broker): INZ000161534

PUBLIC NOTICE

This is to inform that, Angelbok, Angelbg, Angeloneelite applications on play store/IOS are wrongfully and deceptively using the brand name and logo of Angel One Limited to deceive the general public in believing it to be associated with Angel One Limited. Investors and General Public are hereby informed that Angel One Limited does not have any association and/or relation, directly or indirectly with "Angelbok", "Angelbg", "Angeloneelite" applications in any capacity. Angel One Limited will not be liable in any manner of financial loss and/or consequence of dealing with Angelbok, Angelbg, Angeloneelite applications. Please note that any person dealing with them will be dealing at his/her own risk and responsibility.

For ANGEL ONE LTD Sd/-
Authorized Signatory

Date : 16.02.2024

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR UNITS OR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

ROYAL SENSE LIMITED
Our Company was incorporated as 'Royal Sense Limited' under the Companies Act, 2013, pursuant to a Certificate of Incorporation dated April 06, 2023, issued by the Registrar of Companies, (Central Registration Centre) having Registration Number 412051. Later on, April 28, 2023, the running business of the proprietorship concern of our Promoter namely 'Royal Traders, PHT & Anaya' was taken-over by the company, along with the assets and liabilities of the proprietorship concern as going concern. For further details please refer to chapter titled "History and Corporate Structure" beginning on page 84 of this Draft Prospectus.

Registered Office: First Floor, Plot No 57, Phase-II, Badli Industrial Area, Badli, Delhi-110042, North West Delhi India.
Tel No.: +91 9205843102 Website: www.royalsense.in; E-mail: compliance@royalsense.in; Contact Person: Ms. Priyanka Bhutani, Company Secretary and Compliance Officer; Corporate Identity Number: U2106DL2023PLC412051

NOTICE TO INVESTORS ("NOTICE")

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UPTO 14,50,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH OF ROYAL SENSE LIMITED ("RSU" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹1/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹1/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹14.50 CRORE, OUT OF WHICH ₹14.50 CRORE SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹1/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹1/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹14.50 CRORE WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF ₹14.50 CRORE SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT A PRICE OF ₹1/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹14.50 CRORE IS HEREBY REFERRED TO AS THE "NET ISSUE".

Potential Bidders may note the following:
a) On February 14, 2024, our Promoter, Rishabh Arora transferred 40,000 Equity Shares to Mr. Manish Kumar, he is not connected with our Company, our Promoters, our Promoter Group, our Directors, our Key Managerial Personnel, our Subsidiaries, our Group Companies and their respective directors and key managerial personnel.
b) On February 14, 2024, our Promoter, Rishabh Arora transferred 4,000 Equity Shares to Mr. Manoj Jain, he is not connected with our Company, our Promoters, our Promoter Group, our Directors, our Key Managerial Personnel, our Subsidiaries, our Group Companies and their respective directors and key managerial personnel.
c) On February 14, 2024, our Promoter, Rishabh Arora transferred 40,000 Equity Shares to Mr. Utsav Pramod Kumar Srivastav, he is not connected with our Company, our Promoters, our Promoter Group, our Directors, our Key Managerial Personnel, our Subsidiaries, our Group Companies and their respective directors and key managerial personnel.
d) On February 14, 2024, our Promoter, Rishabh Arora transferred 40,000 Equity Shares to Mr. Utsav Pramod Kumar Srivastav, he is not connected with our Company, our Promoters, our Promoter Group, our Directors, our Key Managerial Personnel, our Subsidiaries, our Group Companies and their respective directors and key managerial personnel.
e) On February 15, 2024, our Promoter, Rishabh Arora transferred 36,000 Equity Shares to Mr. Manoj Jain, he is not connected with our Company, our Promoters, our Promoter Group, our Directors, our Key Managerial Personnel, our Subsidiaries, our Group Companies and their respective directors and key managerial personnel.

The details of Transfer are provided below:

Date of Transaction/ Transfer	Name of Transferor	Name of Transferee/ Acquirer/ Allottee	Nature of Transfer	Number of Equity Shares Transferred	Transfer Price per Equity Share (in ₹)
February 14, 2024	Rishabh Arora	Manish Kumar	Sale	40,000	25/-
February 14, 2024	Rishabh Arora	Manoj Jain	Sale	4,000	25/-
February 14, 2024	Rishabh Arora	Haryana Refractories Private Limited	Sale	40,000	25/-
February 14, 2024	Rishabh Arora	Utsav Pramod Kumar Srivastav	Sale	40,000	25/-
February 15, 2024	Rishabh Arora	Manoj Jain	Sale	36,000	25/-

Details of Shareholding of Mr. Rishabh Arora, Mr. Manish Kumar, Mr. Manoj Jain, Haryana Refractories Private Limited and Utsav Pramod Kumar Srivastav in the Company, prior to and subsequent to the Transfer

S. No.	Date of Transaction/ Transfer	Name	Pre-Transfer Shareholding		Post-Transfer Shareholding	
			No. of Equity Shares	Percentage (%)	No. of Equity Shares	Percentage (%)
1.	February 15, 2024	Rishabh Arora	34,50,140	99.99	32,90,140	95.36
2.	February 15, 2024	Manish Kumar	-	-	40,000	1.16
3.	February 15, 2024	Manoj Jain	-	-	40,000	1.16
4.	February 15, 2024	Haryana Refractories Private Limited	-	-	40,000	1.16
5.	February 15, 2024	Utsav Pramod Kumar Srivastav	-	-	40,000	1.16

Details of Shareholding of Mr. Rishabh Arora, Mr. Manish Kumar, Mr. Manoj Jain, Haryana Refractories Private Limited and Utsav Pramod Kumar Srivastav in the Company, prior to and subsequent to the Transfer

S. No.	Date of Transaction/ Transfer	Name	Pre-Transfer Shareholding		Post-Transfer Shareholding	
			No. of Equity Shares	Percentage (%)	No. of Equity Shares	Percentage (%)
1.	February 15, 2024	Rishabh Arora	34,50,140	99.99	32,90,140	95.36
2.	February 15, 2024	Manish Kumar	-	-	40,000	1.16
3.	February 15, 2024	Manoj Jain	-	-	40,000	1.16
4.	February 15, 2024	Haryana Refractories Private Limited	-	-	40,000	1.16
5.	February 15, 2024	Utsav Pramod Kumar Srivastav	-	-	40,000	1.16

LEAD MANAGERS

EXPERT GLOBAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
F-11, RC Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034, India.
Telephone: 011 4509 8234, Email: ipo@expertglobal.in; Website: www.expertglobal.in; Investor Grievance Email: compliance@expertglobal.in; Contact Person: Mr. Gaurav Jain; SEBI Registration Number: INM000012874
CIN: U7110DL2010PTC205995

REGISTRAR TO THE OFFER

Bigshare Services Pvt. Ltd.
Address: Office No. 56-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093
Tel No: +91 22-62638200; Fax No: +91 22-62638299
Website: www.bigshareonline.com, E-Mail: ipo@bigshareonline.com
Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com
Contact Person: Mr. Babu Raphael
SEBI Registration No.: INR000001385

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DP.

For ROYAL SENSE LIMITED Sd/-
Priyanka Bhutani
Date: February 15, 2024 Company Secretary and Compliance Officer

"Further we will update the capital structure in the Prospectus. Royal Sense Limited is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its equity shares and has filed the DP to BSE and received In-Principal approval. The DP is available on the websites of the Company at www.royalsense.in, the lead managers, Expert Global Consultants Private Limited, www.expertglobal.in and BSE Limited at www.bseindia.com, respectively. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see "Risk Factors" of the DP on page 22, when available. Potential investors should not rely on the DP filed with BSE for any investment decision. The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in offshore transactions in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made."

वस्तु निर्यात 3 माह के उच्च स्तर पर

श्रेया नंदी
नई दिल्ली, 15 फरवरी

लाल सागर के संकट, विकसित देशों में मांग कम होने और जिनसे के गिरते दाम के बीच जनवरी महीने में वस्तु यानी माल का निर्यात पिछले साल की समान अवधि की तुलना में बढ़कर 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

हालांकि व्यापार घाटा (निर्यात और आयात के बीच अंतर) जनवरी महीने में थोड़ा बढ़कर 17.49 अरब डॉलर हो गया है, जो दिसंबर में 16.03 अरब डॉलर था। वाणिज्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इसकी वजह निर्यात की तुलना में आयात में तेज बढ़ोतरी है। जनवरी में आयात 54.41 अरब डॉलर का रहा है, जो 4.17 फीसदी अधिक है। भारत ने जनवरी में 36.92 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया, जबकि एक साल पहले के समान महीने में 35.78 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। सरकार से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि अगर लाल सागर क्षेत्र में चुनौती नहीं आती तो भारत से निर्यातित वस्तुओं का मूल्य और अधिक रहा होता।

वाणिज्य सचिव सुनील बड़धवाल ने संवाददाताओं से कहा कि शुरुआत में सरकार इस बात से चिंतित थी कि लाल सागर संकट के कारण निर्यात घट सकता



है। लाल सागर क्षेत्र में संकट को लेकर कठिन परिस्थितियों से उबरने के लिए वाणिज्य विभाग ने अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ बैठक की थी, जिसमें यह चर्चा हुई कि इन कठिन परिस्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है। निर्यात में वृद्धि की एक वजह यह भी हो सकती है। बड़धवाल ने कहा, 'हमने बैंकों से यह भी कहा कि इस दौरान निर्यातकों को अधिकतम ऋण दिया जाए। एफिम बैंक और ईसीजीसी को कहा गया कि बीमा की दरें नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी वजह से कुल मिलाकर सकारात्मक मानसिकता बनी और इसकी वजह से विपरीत परिस्थितियों में भी निर्यात में वृद्धि हुई है।' उन्होंने उम्मीद

जनवरी में निर्यात

■ भारत ने जनवरी में 36.92 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया, जबकि एक साल पहले के समान महीने में 35.78 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था

■ व्यापार घाटा जनवरी में थोड़ा बढ़कर 17.49 अरब डॉलर हो गया है, जो दिसंबर में 16.03 अरब डॉलर था

जताई कि अगले साल के दौरान भी निर्यात धनात्मक क्षेत्र में बना रहेगा। विश्व के 30 फीसदी कंटेनरों की आवाजाही और 12 फीसदी वैश्विक कारोबार के लिए लाल सागर अहम है। भारत का यूरोप के साथ 80 फीसदी कारोबार इस मार्ग से होता है। भारत ने दिसंबर में 38.45 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया था। लेकिन कुल मिलाकर इस वित्त वर्ष में अप्रैल से जनवरी के दौरान निर्यात 4.89 फीसदी घटकर 351.92 अरब डॉलर रह गया है, जबकि आयात 6.71 फीसदी गिरकर 561.2 अरब डॉलर रहा है। जनवरी महीने में गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न एवं आभूषण निर्यात, जिसे प्रमुख

निर्यात कहा जाता है, 2.5 फीसदी बढ़कर 26.12 अरब डॉलर रहा है। वहीं दूसरी तरफ गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न एवं आभूषण का आयात 5.18 फीसदी गिरकर 33.72 अरब डॉलर रहा है।

जनवरी महीने में भारत का वस्तु निर्यात 30 सेक्टर में से 12 सेक्टर में कम हुआ है। जनवरी में जिन प्रमुख वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है, उनमें रत्न एवं आभूषण (-1.25 फीसदी), रेडिमेड गार्मेंट्स (-3.46 फीसदी), मानव निर्मित धागे (-4.33 फीसदी), जूट (-19.45 फीसदी) शामिल हैं।

बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पाद (6.57 फीसदी),

ड्रम एंड फार्मास्यूटिकल्स (6.84 फीसदी), इलेक्ट्रॉनिक्स सामान (9.3 फीसदी), इंजीनियरिंग के सामान (4.2 फीसदी) शामिल हैं।

वहीं 30 में से 17 सामान का माल आयात संकुचित हुआ है। इनमें ट्रांसपोर्ट उपकरण (-20.6 फीसदी), प्रोजेक्ट गुड्स (-43.94 फीसदी), आयरन और स्टील (-7.47 फीसदी) शामिल हैं। जनवरी महीने में सोने के आयात में 173.63 फीसदी की वृद्धि हुई है और 1.91 अरब डॉलर का सोना भारत आया है। ईईपीसी के चेयरमैन अरुण कुमार गैर पेट्रोलियम के आयात में डेटा एक्सक्लूसिविटी के प्रावधानों को शामिल किए जाने के खिलाफ रहा है, जिससे घरेलू जेनेरिक दवा उद्योग के हितों की रक्षा की जा सके।

जेनेरिक दवा उद्योग के हितों की रक्षा के लिए

ईएफटीए की शर्त खारिज

श्रेया नंदी
नई दिल्ली, 15 फरवरी

जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार एसोसिएशन (ईएफटीए) देशों की 'डेटा एक्सक्लूसिविटी' की मांग खारिज कर दी है। यह दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के बौद्धिक संपदा (आईपी) अध्याय का हिस्सा है।

ईएफटीए में 4 देश आईलैंड, स्विटजरलैंड, नॉर्वे और लिच्टेनस्टाइन हैं। डेटा एक्सक्लूसिविटी का मतलब नवाचार करने वाली कंपनियों के टेक्निकल डेटा को सुरक्षित रखना है ताकि उनके उत्पादों की उपयोगिता बनी रहे। वाणिज्य सचिव सुनील बड़धवाल ने गुरुवार को कहा कि ऐसा कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं होगा, जो भारत के जेनेरिक दवा उद्योग के खिलाफ हो। बड़धवाल ने संवाददाताओं से कहा, 'वे डेटा एक्सक्लूसिविटी चाहते थे, हमने उनकी मांग खारिज कर दी। हम अपने जेनेरिक उद्योग के साथ हैं। भारत के जेनेरिक उद्योग को कोई डर (इस समझौते से) नहीं है। दरअसल यह हमारा बहुत महत्वपूर्ण मकसद है कि जेनेरिक दवा उद्योग बढ़े।' एक दशक से ज्यादा समय से भारत एफटीए में डेटा एक्सक्लूसिविटी के प्रावधानों को शामिल किए जाने के खिलाफ रहा है, जिससे घरेलू जेनेरिक दवा उद्योग के हितों की रक्षा की जा सके।

कार्बन कर पर सीईए ने जताई चिंता

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 15 फरवरी

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था (सीबीएएम) यानी यूरोपीय देशों में लगाने वाले कार्बन कर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने विकसित देशों से सकारात्मक सोच अपनाने की अपील की है, ताकि विकसित देशों में आर्थिक गतिविधियां सुनिश्चित करना विकासशील देशों के लिए घाटे का सौदा न हो।

सीईए ने कहा, 'अगर विकासशील देश, विकसित देशों के लोगों का जीवन और संपत्ति सुनिश्चित करते हैं तो उन्हें उसके बदले क्या मिल रहा है? विकसित देश उसके लिए किस तरह के प्रीमियम के भुगतान को इच्छुक हैं? निश्चित रूप से यह सीबीएएम नहीं हो सकता है।'

कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था का मकसद यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले लौहा, स्टील, सीमेंट,

उर्वरक और एल्यूमीनियम जैसे ऊर्जा-गहन उत्पादों पर कार्बन टैरिफ या टैक्स लगाना है।

कार्बन कर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। परीक्षण की अवधि 1 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई है। इस दौरान कार्बन की बहुलता वाले स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम और हाइड्रोजन उत्पाद जैसे सात क्षेत्रों को ईयू के साथ उत्सर्जन के आंकड़े साझा करने होंगे।

आर्थिक मामलों के विभाग और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की ओर से आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीईए ने यह बात कही।

नागेश्वरन ने जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन से भूराजनीतिक जोखिम है, लेकिन जो देश अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, वे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के दौर की तुलना में ज्यादा असुरक्षित हो रहे हैं, खासकर जब दुर्लभ और अहम खनिज की आपूर्ति की बात आती है।

उन्होंने कहा, 'आपूर्ति के कुछ स्रोतों पर निर्भरता जोखिम की बात है, जिसे बीमा के दायरे में लाने की जरूरत है। अगर ऐसा कोई जोखिम आता है तो क्या बीमा उद्योग इसके लिए तैयार है? या यह कुछ ऐसा है, जिसे सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सहयोग की व्यवस्था से ही किया जा सकता है।'

सीईए ने कहा कि वित्तीय संस्थानों को ऊर्जा के बदलाव की स्थिति में फंसी संपत्तियों के जोखिम से बचाव की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'बैंकों का बीमा कैसे करेंगे? अगर संपत्तियों को बैंक बट्टे खाते में डालते हैं तो उन्हें और पूंजी की जरूरत पड़ सकती है। आकस्मिक पूंजी लाने की जरूरत होगी।'

नागेश्वरन ने विश्व के विकसित देशों में गलत नीतियों के कारण डर पैदा होने और उसके कारण विकासशील देशों में उत्पादन और रोजगार पर पड़ने वाले असर का बीमा कराने की जरूरत का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, 'बीमा घाटे के खिलाफ एक बचाव है। हम आज

उभरते बाजारों में हरित निवेश बढ़ाने की जरूरत

अंजलि कुमारी
मुंबई, 15 फरवरी

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि हरित परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण विषय है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित है। उन्होंने कहा कि उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में इस क्षेत्र में पूंजी प्रवाह को तत्काल बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है।

मुंबई में आयोजित वैश्विक 59वें सीसेन गवर्नर्स सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए तालमेल की जरूरत है क्योंकि कोई एक देश अलग थलग रहकर इसके लिए प्रभावी रणनीति नहीं बना सकता है।

उन्होंने कहा, 'सुचारु रूप से हरित बदलाव के लिए निवेश की जरूरतें बढ़ी हैं, वहीं हरित परियोजनाओं में वास्तविक वित्तीय आवक बहुत कम है और कुल मिलाकर यह विकसित अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित है। इसे देखते हुए ईएमई में हरित पूंजी का प्रवाह बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही हमें हरित बदलाव में वित्तीय स्थायित्व की संभावनाओं को भी ध्यान में रखने की जरूरत है।'



शक्तिकांत दास
गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

दिवाला बोर्ड की वैकल्पिक मध्यस्थता की सिफारिश

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 15 फरवरी

भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) की विशेषज्ञ समिति ने वैकल्पिक मध्यस्थता प्रक्रिया की सिफारिश की है। यह ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) में खाके के रूप में अच्छा काम करेगी।

समिति ने संहिता के अंतर्गत विवाद समाधान के तंत्र में मध्यस्थता को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रस्ताव किया है। हालांकि इसमें हालिया विधिन दिवाला प्रक्रियाओं के लिए समयसीमा तय की गई है जिससे इससे लागू करने के तरीके में शामिल किया जा सके।

हालांकि सिफारिशों का प्रथम चरण वैकल्पिक है। समिति ने कहा कि लागू करने के दूसरे चरण में वित्तीय ऋणदाताओं के साथ एक पक्ष के रूप में मध्यस्थता की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

कानूनी मामलों के पूर्व सचिव टीके विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली समिति ने भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता, 2016 से आईबीबीआई के अंतर्गत मध्यस्थता के इस्तेमाल के प्राप्ति के लिए एक माला (वन-साइज-फिट्स-ऑल) हो। हालांकि यह संहिता के अंतर्गत दिवाला शोधन प्रक्रिया के लिए अनुकूल नहीं हो सकती है। इस समिति ने इस संहिता में मध्यस्थता को वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में पेश करने का सुझाव दिया है और यह सुझाव वैधानिक समयसीमा व प्रक्रियाओं के तहत दिया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और आईबीबीआई को इस सिलसिले में कानून, विनियमन और अधिसूचना जारी करने के लिए अपनी शक्ति प्रस्तुत करनी चाहिए।



हल होगा आसान

■ कानूनी मामलों के पूर्व सचिव टीके विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली समिति ने मध्यस्थता के इस्तेमाल के प्राप्ति के लिए एक माला (वन-साइज-फिट्स-ऑल) हो। हालांकि यह संहिता के अंतर्गत दिवाला शोधन प्रक्रिया के लिए अनुकूल नहीं हो सकती है।

इस समिति ने इस संहिता में मध्यस्थता को वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में पेश करने का सुझाव दिया है और यह सुझाव वैधानिक समयसीमा व प्रक्रियाओं के तहत दिया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और आईबीबीआई को इस सिलसिले में कानून, विनियमन और अधिसूचना जारी करने के लिए अपनी शक्ति प्रस्तुत करनी चाहिए।

बढ़ती स्पैम कॉल पर अंकुश के लिए समिति

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 15 फरवरी

सरकार स्पैम कॉल पर अंकुश लगाने के लिए समिति गठित कर सकती है। यह समिति विशेष तौर पर इंटरनेट और वॉट्सएप से की जाने वाली कॉल्स के लिए दिशानिर्देश का प्रारूप तय करेगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने गुरुवार को अंतर मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक्स पर जारी पोस्ट में बताया कि इस बैठक में समिति बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। इस बैठक में दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अलावा निजी क्षेत्र की तीन कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन इंडिया भी शामिल हुई थीं। दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ता मामलों का विभाग स्पैम कॉल को कम किए जाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को जानने का उत्सुक था।

आत्ममंथन करे नोट छापने वाली कंपनी

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 15 फरवरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नोट छापने वाली कंपनी सिक्स्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (एसपीएमसीआईएल) से गुरुवार को कहा कि कंपनी को अपने भविष्य के बारे में आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि उसका मुख्य कारोबार मुद्रा छापना है और देश डिजिटल दौर की ओर बढ़ रहा है। सीतारमण ने कहा कि आप दरअसल ऐसे दौर में कामकाज कर रहे हैं, जब मुद्रा के कुल मूल्य में आपका प्रमुख कारोबार संकेतात्मक बन रहा है।

आज हड़ताल, लोहा और स्टील उद्योग नहीं ले सकते हिस्सा

नितिन कुमार
नई दिल्ली, 15 फरवरी

केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोहा और स्टील के लिए सार्वजनिक उपयोगिता की अवधि को छह महीने के बढ़ा दिया है। इससे सरकार ने कुछ दिन पहले एल्यूमीनियम उद्योग और बॉक्साइट खनन के लिए 'सार्वजनिक उपयोगिता' की अवधि बढ़ाई थी।

सार्वजनिक उपयोगिता सेवा से तात्पर्य उन उद्योग या सेवाओं से होता है जो समाज की भलाई व कामकाज के लिए आवश्यक होते हैं। इन सेवाओं को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि इनमें बाधा आने या रुक जाने से

सार्वजनिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है या कठिनाई पैदा कर सकती है। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को लागू कर दिया। इसमें 'सार्वजनिक हित' का उल्लेख किया गया है और 'इन' 'अनिवार्य' क्षेत्रों में निर्बाध सेवाओं को जारी रखने की जरूरत पर बल दिया है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने कहा कि श्रमिक संगठनों की 16 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से एक दिन पहले यह फैसला आया है। इसका मकसद कर्मचारियों को हड़ताल के अधिकार से वंचित करना है।

डिस्कलेमर... बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के निबंधन एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिजनेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति किए बिना समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।